

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा सितंबर 2019 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- i. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन माननीय राज्यमंत्री (कार्मिक) की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया था जिसमें सभी तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
 - ii. कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन किया:
 - संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा (टी-II) – 11.09.2019 से 14.09.2019 तक
 - कनिष्ठ अभियंता परीक्षा – 2018 (प्रश्न-पत्र-I) – 23.09.2019 से 27.09.2019 तक
 - सीपीओ परीक्षा 2018 में उप निरीक्षक – (प्रश्न-पत्र-II) – 27.09.2019
 - संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा (प्रश्न-पत्र-II) – 29.09.2019इसके अतिरिक्त आयोग ने निम्नलिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं:
 - संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2018 (प्रश्न-पत्र-I) का परिणाम दिनांक 12.09.2019 को घोषित किया गया।
 - दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक, सीआईएसएफ परीक्षा, 2018 में सीएपीएफ तथा एसआई(पीईटी/पीएसटी का परिणाम) का परिणाम दिनांक 09.09.2019 को घोषित किया गया।
 - कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2018 (प्रश्न-पत्र-II) का परिणाम दिनांक 04.09.2019 को घोषित किया गया।
 - iii. मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 07 मामलों (02 सीएमडी/एमडी तथा 05 कार्यात्मक निदेशक) में नियुक्तियों का अनुमोदन किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की तीन (03) नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यपालकों की एक (01) नियुक्ति, मंत्रियों के निजी सचिवों की नियुक्ति के छह (06) प्रस्तावों, मंत्रियों के ओएसडी की नियुक्ति संबंधी एक (01) प्रस्ताव, समय-पूर्व प्रत्यावर्तन के दो (02) प्रस्तावों तथा कार्यकाल विस्तार संबंधी दो (02) प्रस्तावों का अनुमोदन मंत्रिमण्डल सचिव/एसीसी द्वारा किया गया।
 - iv. पीईएसबी, डीओपीटी ने निदेशक के 02 (दो) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया तथा 14 (चौदह) चयन बैठकों का आयोजन (02 सीएमडी/एमडी तथा 12 निदेशकों के लिए) किया गया था।
 - v. पार्श्विक भर्ती नीति के तहत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 08 (आठ) संयुक्त सचिवों को नियुक्त किया गया है।
 - vi. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय, 1958 में तीसरे संशोधन को दिनांक 19.09.2019 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था।
 - vii. केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेलकूद बोर्ड (सीसीएससीएसबी) ने सहायक सचिवों XI और मंत्रिमंडल सचिवों XI के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन दिनांक 29.09.2019 को सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में किया।
 - viii. सितम्बर माह के दौरान आईएसटीएम में 23 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें 03 सीएसएस-सीटीपी तथा 04 सीएसएसएस-सीटीपी कार्यक्रमों को शामिल किया गया। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 580 थी।
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेशों/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए :-

क दिनांक 24.09.2019 के का.ज्ञा. सं. 21011/04/2019-स्था.(क-II) के द्वारा वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में सरकारी ई-मार्केटप्लेस के उपयोग को दर्शाना।

ख दिनांक 17.09.2019 के का.ज्ञा. सं. 2/11/2019-स्था.(वेतन-II) के द्वारा संघ के मंत्रियों के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति आधार पर उनकी नियुक्ति से पूर्व मूल संवर्ग में किसी पद पर तदर्थ आधार पर

सेवारत अधिकारियों की ऐसी प्रतिनियुक्ति तथा मूल संवर्ग में आगामी प्रत्यावर्तन के दौरान सेवा-शर्तों का विनियमन।

ग दिनांक 12.09.2019 के का.ज्ञा. सं. 12/3/2016-जेसीए-2 के द्वारा दिनांक 23.09.2019 (सोमवार) को छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश के लिए राज्य विधानसभाओं के लिए उपचुनाव में मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश प्रदान करना।